



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2301]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 24, 2012/अग्राहायण 3, 1934

No. 2301]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 24, 2012/AGRAHAYANA 3, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2012

का.आ. 2794(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2647(अ), तारीख 25 नवम्बर, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 के 135.800 कि.मी. से 166.400 कि.मी. तक के भू-खण्ड (त्रिची-करुर सेक्शन) का (बाइपास सहित) निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 22 जनवरी, 2012 को "दि न्यू इण्डियन एक्सप्रेस" और "डेली थॉथी" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 के 135.800 कि. मी. से 166.400 कि. मी. (बाईपासों सहित) (त्रिची - करूर सेक्शन) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	वार्ड /ब्लांक संख्या	सर्वेक्षण /उप विभाजन संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्ति का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	तिरुचिरापल्ली	श्री रंगम	(1) मेक्कुडी		156	रयोटवारी	शुष्क	685	1. थिरु उलागापिल्लै पुत्र कुप्पुसामी पिल्लै 2. थिरु श्रीनिवासन पिल्लै 3. थिरु थमबुसामी पिल्लै 4. थिरु नटेशा पिल्लै 5. थिरु शानमुगाम पिल्लै 6. थिरु नारायणसामी पिल्लै 7. थिरु अप्पु पिल्लै 8. थिरु कुंजु गाउंडर 9. थिरु वदीवेल पिल्लै 10. थिरु समबाशिवम पिल्लै 11. थिरु कानागासाबाई पिल्लै 12. सारधामबाल 13. सरस्वती अम्माल 14. थिरु कथा पेरुमल 15. सारनाथाम्माल 16. थिरु रागालिंगम पिल्लै 17. थिरु मुथुकुरुप्पा पिल् 18. थिरु नटराजन ईयेर 19. थिरु कृष्णामुर्थि ईयर 20. थिरु वेनुगोपाल गाउंडर 21. थानदावासाया पिल्लै 22. थिरु रासु पुत्र पेरीयासामी
					157/1	रयोटवारी	नम	2215	थिरु अलगार पुत्र मनीकम
					157/2	सरकारी	नम	3065	थिरु पेरीयासामी पुत्र मनीकम
					159/2	सरकारी	नम	9	1. थिरु विजयाराधवन 2. थिरु शक्तिविनायागाम पुत्र अरुणाचलम पिल्लै
					158	सरकारी	पोरमबोक	485	वैक्काल पोरमबोक
		(2) पेरुर			46/3	रयोटवारी	नम	915	थिरु वासुदेवन पुत्र परमाशिवम 2. थिरु कालीकरुपान पुत्र मोकान मुथिरीयार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				48/1	रयोतवारी	नम	514	थिरु पंचावरनाम पुत्र वेलु
				48/2	रयोतवारी	नम	205	थिरु पंचावरनाम पुत्र वेलु
				48/5	रयोतवारी	नम	41	1. थिरु कालीकरुप्पान पुत्र मोकान मुथिरियार 2. थिरु मरीमुधु पुत्र मोकान मुथिरियार 3. टीएमटी पाप्पाथी पत्नी नीलमेगाम
				89/2	रयोतवारी	नम	750	थिरु पोन्नार पुत्र स्व अप्पुनान 2. श्रीमति तुलसी
				90/3	रयोतवारी	नम	380	श्रीमति नावनीथाम पत्नी शानमुगाम
				90/4	रयोतवारी	नम	215	श्रीमति पुष्पाथाम्माल पत्नी चिदम्बम
				90/5	रयोतवारी	नम	216	थिरु कैलाशम पत्नी मरुथाई
				90/6	रयोतवारी	नम	47	थिरु शानमुगमा पुत्र कान्दान
				90/7	रयोतवारी	नम	27	1. थिरु जयबाल पुत्र चिन्नाईयान 2. श्रीमति वसन्ता पत्नी स्व कोठारी
				91/1	रयोतवारी	नम	69	थिरु मनीवन्नान पुत्र रामामनीकाम
				91/2	रयोतवारी	नम	45	थिरु मनीवन्नान पुत्र रामामनीकाम
				91/4	रयोतवारी	नम	550	थिरु मनीवन्नान पुत्र रामामनीकाम
				91/5	रयोतवारी	नम	300	थिरु चन्द्रशेखर केयर आफ पोन्नार
				92/6	रयोतवारी	नम	24	थिरु पदमानाथन पुत्र चिदम्बारम थिरु मनीवन्नान पुत्र रामामनीकाम
				47/3बी	सरकारी	पोरमबोक	393	नाथम
				55/1	सरकारी	पोरमबोक	127	वैक्काल
				55/7	सरकारी	पोरमबोक	92	वैक्काल
				90/1	सरकारी	पोरमबोक	9	वैक्काल
		3. मुल्ली कारुम्बूर	—	13/1	सरकारी	पोरमबोक	245	वैक्काल
				20/2	रयोतवारी	नम	30	थिरु गणेशन पुत्र राजन मुथिरियार 2. थिरु थानगाईयान पुत्र राजामनीकाम मुथिरियार 3. थिरु गनानाशेखर पुत्र सान्थानाम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								4. थिरु पोन्नान पुत्र अप्पुनान
				24/3ए	रयोतवारी	नम	1709	थिरु प्रकाशम पुत्र रासु मुथिरियार
				27	रयोतवारी	नम	1011	1. थिरु रामाचन्द्रन 2. थिरु परमाशिवम 3. थिरु पेरीयासामी 4. थिरु रासु 5. थिरु मोहनसुन्दरम 6. थिरु मुरुगानान्दाम 7. थिरु सोन्द्राराजन
				29/5	रयोतवारी	नम	1033	1. श्रीमति अथीलक्ष्मी पत्नी नाल्लाथामबी 2. श्रीमति वसन्ता पत्नी स्व थोथाथीरी राव
				32/1	सरकारी	पोरमबोक	23	कुट्टाई
				32/2	रयोतवारी	नम	74	थिरु गनानाशेखरन
				32/6	रयोतवारी	नम	186	श्रीमति पाप्पा पत्नी अदाईकाला कथान
				32/7	रयोतवारी	नम	4	थिरु आर थियागराजन
				48/2बी	रयोतवारी	नम	136	थिरु मोहनसुन्दरम पुत्र रामाचन्द्रन
				48/6	सरकारी	पोरमबोक	69	वैक्काल
				52/3	रयोतवारी	नम	1974	थिरु परमाशिवम पुत्र सन्नील्लीमुथिरीयार
				52/4	रयोतवारी	नम	53	थिरु रामर मुथुराजा पुत्र वीरामलाई
				52/8	सरकारी	पोरमबोक	31	वैक्काल
				54/1	रयोतवारी	नम	231	1. थिरु पारानजोथी 2. थिरु शशिवर्लिगम 3. थिरु सेलवाराज 4. थिरु सुन्द्रालिगम 5. थिरु कर्तिकेयन 6. थिरु घनापाल पुत्र पेरीयासामी अमबालाकारान
				55/3	रयोतवारी	नम	434	श्रीमति वानिथावल्ली पत्नी सेलवाकुमार
				56/5	सरकारी	पोरमबोक	201	वैक्काल
				62/1ए	रयोतवारी	नम	281	1. थिरु संगीली 2. थिरु रामर, वीरामलाई मुथुराजा के पुत्रों
				62/2	सरकारी	पोरमबोक	91	वैक्काल
				118/2ए	रयोतवारी	नम	140	थिरु कन्दासामी पुत्र कान्नुसामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					119/1	रयोतवारी	शुष्क	141 थिरु रराधवेन्द्रन ट्रस्टी श्री वरधाराजा पेरुमल कोईल मुल्लीकरुमबुर
					119/2	सरकारी	पोरमबोक	8 पैदल रास्ता
					120/3	सरकारी	पोरमबोक	10729 कटटुवरी
					124/2	रयोतवारी	नम	257 1. श्रीमति पदमावती अम्माल पत्नी रामामुर्थि 2. थिरुनावुक्कारासु
			(4) पंजापूर	एएन-1	15/1	रयोतवारी	शुष्क	242 थिरु शिवकुमार पुत्र वेनुगोपाल
					15/2	रयोतवारी	शुष्क	123 थिरु शिवकुमार पुत्र वेनुगोपाल
				एएन-2	4	सरकारी	शुष्क	1591 खाली जगह
					21	सरकारी	पोरमबोक	1306 कुलाम
					22	सरकारी	पोरमबोक	54 कुलाम
					38/1	सरकारी	पोरमबोक	20 अरुलमीगु मुनीयप्पानकोईल
					38/2	रयोतवारी	शुष्क	100 थिरु बालासुब्रामणियन पुत्र कन्दासामी बालानदार
					38/3	रयोतवारी	शुष्क	100 1. थिरु विजयाश्रधवन 2. थिरु समपथ 3. थिरु के आर कृष्णन पुत्र रेंगासामी ईयेनगार 4. मैसर्स साहारा ईर्डियन कर्मिसियल कार्पोरेशन लि
					38/5	रयोतवारी	शुष्क	265 1. थिरु विजयाश्रधवन 2. थिरु समपथ 3. थिरु के आर कृष्णन पुत्र रेंगासामी ईयेनगार 4. मैसर्स साहारा ईर्डियन कर्मिसियल कार्पोरेशन लि
					39	सरकारी	पोरमबोक	106 वैक्काल
					40/3	सरकारी	पोरमबोक	21 वैक्काल
					40/4	सरकारी	पोरमबोक	10 वैक्काल
					40/5	रयोतवारी	शुष्क	57 1. थिरु थंगारासु 2. थिरु पुरुशोत्तमन 3. थिरु राजागोपालन पुत्र अरुमुगम
					40/6	रयोतवारी	शुष्क	2334 थिरु बालासुब्रामणियम पुत्र पलानियान्दी
					41/3	रयोतवारी	शुष्क	244 1. थिरु बालासुब्रामणी 2. थिरु बालामनी 3. थिरु थुलसी कोनार
					41/4	रयोतवारी	शुष्क	312 1. बालामनीयम्माल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2. सेलवम, नागराजन के पुत्र
				41/5	रयोतवारी	शुष्क	3120	1. थिरु थंगारासु 2. थिरु परुषोत्तमन 3. थिरु राजागोपालन पुत्र अरुमुगम
		(5)पेरिया कारुपूर		515/3	रयोतवारी	शुष्क	524	1. थिरु एस अमबालवानान 2. थिरु एस उलागाप्पान पिल्लै 3. एस शिवराज पिल्लै, सचिथानानधाम पिल्लै के पुत्र
				516/1	रयोतवारी	शुष्क	130	थिरु अन्नादुराई पुत्र सचिथानानधाम पिल्लै
				516/2	सरकारी	पोरमबोक	269	वैक्काल
				516/3	रयोतवारी	शुष्क	1127	थिरु आर शिवप्रकाशम पुत्र रघुनाथा पिल्लै 2. थिरु एस अन्नादुराई पिल्लै 3. थिरु एस घनाकोडी पिल्लै 4. थिरु एस अमबालवानान पुत्र सचिथानानधाम पिल्लै
				517/1	रयोतवारी	नम	640	थिरु कथामुथु पुत्र मनीकाम
				517/2	सरकारी	पोरमबोक	113	वैक्काल
				517/3ए	रयोतवारी	शुष्क	120	थिरु अलगार पुत्र मनीकम
				517/4	रयोतवारी	शुष्क	70	1. थिरु उलागापिल्लै 2. थिरु शिवनेशन 3. थिरु सचिथानानधाम 4. थिरु शिवप्रकाशम पुत्र रघुनाथाम पिल्लै
				517/5	सरकारी	पोरमबोक	187	वैक्काल
				519/1	रयोतवारी	नम	459	1. थिरु अमबालवानान 2. थिरु उलागापिल्लै 3. थिरु शिवराज पिल्लै 4. थिरु अन्नादुराई पिल्लै, के पुत्रों सचिथानानधाम पिल्लै थिरु शिवप्रकाशम पुत्र रघुनाथा पिल्लै
		(6)अदावतूर पश्चिम		1/1	रयोतवारी	नम	50	1. थिरु मनीकान्नाम पुत्र राजामनीकम 2. थिरु मुरगानाथान पुत्र राजामनीकम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1/2	रयोतवारी	नम	20	1. थिरु मनीवान्मन पुत्र राजामनीकाम 2. थिरु मुरुगानानधाम पुत्र राजामनीकाम
				14/1	रयोतवारी	नम	400	थिरु परीमानाम पुत्र पलानियान्दी
				14/2ए	रयोतवारी	नम	50	थिरु परीमानाम पुत्र पलानियान्दी
				14/2बी	रयोतवारी	नम	37	थिरु सेठ ७ अधीकान पुत्र वीरामलाई
				14/3	रयोतवारी	नम	389	थिरु परीमानाम पुत्र पलानियान्दी
				14/7ए	रयोतवारी	नम	124	श्रीमति पेरीयम्माल पत्नी पेरीयान्मन
				14/10	रयोतवारी	नम	18	थिरु करुप्पाई पत्नी कालीनगामुथु राजा
				15	सरकारी	पोरमबोक	321	वैक्काल
				17/2	रयोतवारी	कच्चा रास्ता	44	पैदल रास्ता
				17/3सी	रयोतवारी	नम	19	1. थिरु सुक्कीरान पुत्र रासालिंगम 2. थिरु एम. आर सुब्रामणि
				18/7एफ	रयोतवारी	नम	220	थिरु पेरीयनान पुत्र कुन्दु अमबालाक्कारान
				18/8ई	रयोतवारी	नम	25	थिरु के राजेन्द्रन पुत्र कामतची
				18/10बी	रयोतवारी	नम	4	थिरु कामतची पुत्र पेरीयासामी
				18/13ए	रयोतवारी	नम	100	थिरु कामतची पुत्र पेरीयासामी
				18/13डी	रयोतवारी	नम	9	थिरु कामतची पुत्र पेरीयासामी
				19/5ई	रयोतवारी	नम	10	थिरु रंगानाथान पुत्र सेलवाराज
				19/12	रयोतवारी	नम	45	थिरु रंगानाथान पुत्र सेलवाराज
				19/20बी	रयोतवारी	नम	50	श्रीमति काथाई अम्माल पत्नी थायुमान
				25/9	रयोतवारी	शुष्क	326	थिरु जयासेमहन पुत्र मुरुगानानधाम
				28/4	रयोतवारी	नम	85	थिरु मरुवामुथु पुत्र मुथुकाथान
				28/5	रयोतवारी	नम	3	थिरु अरुमुगाम पुत्र मुथुकाथान

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				28/7ए	रयोतवारी	नम	18	थिरु कामतची पुत्र पेरीयासामी
				28/7बी	रयोतवारी	नम	2	थिरु अरुमुगम पुत्र मुथुकाथान
				28/8ए	रयोतवारी	नम	205	थिरु कामतची पुत्र पेरीयासामी
				28/9	रयोतवारी	नम	187	थिरु कामतची पुत्र पेरीयासामी
				28/10	रयोतवारी	नम	52	थिरु कामतची पुत्र पेरीयासामी
				28/12	रयोतवारी	शुष्क	6	1. थिरु अनानदान पुत्र सेलवाराज
								थिरु माधन पुत्र सेलवाराज
				28/13ए	रयोतवारी	शुष्क	222	श्रीमति नागालक्ष्मी पत्नी राधाकृष्णन
				28/13बी	रयोतवारी	शुष्क	34	1. थिरु अनानदान पुत्र सेलवाराज थिरु माधन पुत्र सेलवाराज
				28/13सी	रयोतवारी	शुष्क	297	थिरु उलाक्कान पुत्र उलाक्कान
				28/13डी	रयोतवारी	शुष्क	504	श्रीमति पुष्पा एन पटेल पुत्र नान्धु के पटेल
				29/07	रयोतवारी	शुष्क	219	थिरु मधन पुत्र सेलवाराज
				29/8ए	रयोतवारी	नम	2299	श्रीमति नागालक्ष्मी पत्नी राधाकृष्णन
				29/9सी	रयोतवारी	नम	106	1. श्रीमति मरीयाई पत्नी गणेशन 2. थिरु पेरीयासामी पुत्र मारुधायई 3. थिरु मुथुकलाई पुत्र अरुमुगम
				30/1ए1	रयोतवारी	शुष्क	679	थिरु ससिराजुधीन पुत्र मोहिदीन अबदुल कादर
				89/12ए	रयोतवारी	शुष्क	40	थिरु मुथुकुरुप्पान पुत्र मारुधायई
								थिरु के पेरीयान्नान पुत्र काथान
								थिरु पनाईयान्दी पुत्र काथान
				89/12बी	रयोतवारी	शुष्क	115	थिरु पी काथान पुत्र पानायादी
				89/13ए	रयोतवारी	शुष्क	88	श्रीमति सुन्दामबाल पत्नी अयनान
				89/13बी	रयोतवारी	शुष्क	81	थिरु जयरामन पुत्र मुथुकृष्णन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				90/2ए	रयोतवारी	शुष्क	59	थिरु जयरामन पुत्र मुथुकृष्णन
				90/2बी	रयोतवारी	शुष्क	102	थिरु सामीनाथन पुत्र स्व पेरीयानान
				90/2सी1	रयोतवारी	शुष्क	35	थिरु जयशेखरन पुत्र सिंगारावेलु
				90/3ए	रयोतवारी	शुष्क	70	श्रीमति करुप्पाई पत्नी स्व काथान
				90/5	रयोतवारी	शुष्क	34	श्रीमति करुप्पाई पत्नी स्व काथान
				90/6	रयोतवारी	शुष्क	42	श्रीमति चेल्लाम्माल पत्नी स्व परीमानाम
				90/12बी1	रयोतवारी	शुष्क	106	1. थिरु कामतची 2. थिरु पेरीयानान 3. थिरु मासी
				90/12बी2	रयोतवारी	शुष्क	200	श्रीमति करुप्पाई पत्नी अरुमुगम
				90/12एफ	रयोतवारी	शुष्क	65	थिरु करुवायान पुत्र मुथुकृष्णन
				92/1	रयोतवारी	शुष्क	49	1. थिरु जयसीलन 2. हीरु राजन पुत्र एन्थोनीसामी
				92/2	सरकारी	पोरमबोक	42	वरी
				101/3सी3एच	रयोतवारी	शुष्क	44	थिरु अयानु मुथीरीयार पुत्र अप्पावु मुथीरीयार
				101/5	रयोतवारी	शुष्क	27	थिरु चिन्नायान पुत्र मरुथाई
				101/6बी	रयोतवारी	शुष्क	294	1. थिरु पेरामान 2. थिरु पेरीयानान पुत्र काथान
				101/9ए	रयोतवारी	शुष्क	1	थिरु मलायाई पत्नी स्व पेरीनान
				103/3ई	रयोतवारी	शुष्क	110	श्रीमति इलामथी पत्नी मुथुकलाई
				103/3एफ	रयोतवारी	शुष्क	1980	श्रीमति कामतचाइम्माल पत्नी मनीकाम
				103/3जी	रयोतवारी	शुष्क	1270	1. श्रीमति रामाई @ पाप्पाम्माल पत्नी कान्दान 2. थिरु सुन्दराजन 3. थिरु थंगावेल, कान्दान के पुत्र
				103/3एच	रयोतवारी	शुष्क	1380	1. श्रीरु अरुमुगम पुत्र कन्दासामी 2. फतिमा पुत्री शेरीफ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								3. श्रीमति बोजजीया बेगम पुत्री मोहम्मद सुलतान 4. थिरु अबदुल कादर पुत्र सुबजा सहिब
				104/1ए2	रयोतवारी	शुष्क	67	थिरु काथामुथु पुत्र परीमानाम
				104/1बी	सरकारी	पोरमबोक	15	वैकाल
				104/1सी2ए	रयोतवारी	शुष्क	211	श्रीमति सुशीला पत्नी काथामुथु
				108/1ए1	रयोतवारी	शुष्क	85	थिरु शशेखर पुत्र पलानियान्दी
				109/1ए1	रयोतवारी	शुष्क	65	थिरु कन्दासामी पुत्र कान्नुसामी
				109/1ए2	रयोतवारी	शुष्क	32	थिरु कन्दासामी पुत्र कान्नुसामी
				109/1ए3	रयोतवारी	शुष्क	27	श्रीमति हसमीथा एन पटेल पत्नी सेरेश एन पटले
				109/1ए4	रयोतवारी	शुष्क	10	थिरु मुरथो पुत्र कान्नुसामी
				110/1ए1	रयोतवारी	शुष्क	70	श्रीमति हसमीथा एन पटेल पत्नी सेरेश एन पटले
				110/1ए2	रयोतवारी	शुष्क	27	श्रीमति हसमीथा एन पटेल पत्नी सेरेश एन पटले
				110/1ए3ए	रयोतवारी	शुष्क	23	श्रीमति पाप्पा पत्नी अरुमुगम
				110/1बी	रयोतवारी	शुष्क	223	1. श्रीमति विजयलक्ष्मी पत्नी शानमुगम 2. थिरु एम वी वी बालासुब्रामण्यम
				110/3बी	रयोतवारी	शुष्क	150	श्रीमति विजयलक्ष्मी पत्नी शानमुगम
				111/1बी3ए	रयोतवारी	शुष्क	2027	1. थिरु राजेन्द्रन 2. थिरुरराजागोपाल 3. थिरु रामाकृष्णन 4. थिरु मथीलानगान 5. थिरु सुन्नामुर्थि, नागास्थीनाम के पुत्र
				111/1बी3बी	रयोतवारी	शुष्क	1180	थिरु शेखर पुत्र पलानियान्दी
				111/1बी3सी	रयोतवारी	शुष्क	395	1. थिरु राजेन्द्रन 2. थिरुरराजागोपाल 3. थिरु रामाकृष्णन 4. थिरु मथीलानगान 5. थिरु सुन्नामुर्थि, नागास्थीनाम के पुत्र
				111/3बी1	रयोतवारी	शुष्क	226	1. थिरु सेठ 2. थिरु चेल्लाईया

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								3. थिरु मनोहरन पुत्र रामालिंगम
				111/3बी2	रयोतवारी	शुष्क	2141	1. थिरु मनीकाम 2. थिरु सेनथुरवेलन 3. थिरु कथिरवेलु पुत्र पलानियान्दी
				111/3सी1	रयोतवारी	शुष्क	38	1. थिरु सेठ 2. थिरु चेल्लाईया 3. थिरु मनोहरन पुत्र रामालिंगम
				111/3सी2	रयोतवारी	शुष्क	2769	श्रीमति इलामथी पत्नी मुथुकलाई
				111/3डी2	रयोतवारी	शुष्क	84	1. श्रीमति रंगनाथायागीयम्माल पत्नी अरुमुगम 2. थिरु मोहम्मेद सुलतान पुत्र कासीम 3. थिरु अकबर अली पुत्र मोहम्मेद कासीम 4. थिरु मोहम्मेद हनीफ पुत्र मोहम्मेद कासीम
				111/2	सरकारी	पोरमबोक	305	वैक्काल
				112/2	रयोतवारी	शुष्क	2447	थिरु राजेश कान्नान पुत्र रंगाराज
			(7)तिरिउप्पीरायतुरई	4/10	सरकारी	पोरमबोक	2103	रामावाईथालाई पुदु वैक्काल
				6/1	सरकारी	पोरमबोक	2822	लायानकाराई
				6/3	रयोतवारी	शुष्क	41	अरुलमीगु अयानारसामी कोईल
				7/1	रयोतवारी	नम	205	थिरु मुथुकृष्णन पुत्र रंगाराजन
				8/8	सरकारी	पोरमबोक	161	रामावैथालाई पुदु वैक्काल
				15/9	सरकारी	पोरमबोक	14	रामावैथालाई पुदु वैक्काल
				16/8	सरकारी	पोरमबोक	50	रामावैथालाई पुदु वैक्काल
				17ए/1	सरकारी	पोरमबोक	521	लायान्काराई
				17ए/2	रयोतवारी	शुष्क	3297	कार्यकारी अधिकारी अरुलमीगु नाथासामी कोईल
				17बी/1ए	रयोतवारी	शुष्क	211	पराईथुराई नथासामी कोईल
				178बी/4	सरकारी	मनाई	2	थिरु गोवथामान पुत्र वैयाली
				179/1	रयोतवारी	मनाई	20	श्रीमति लक्ष्मी पत्नी गणेशन
				179/2	रयोतवारी	मनाई	335	अरुलमीगु सोमानाथासामी कोईल
				179/3	रयोतवारी	मनाई	180	श्रीमति सरस्वती पत्नी वीरासामी
				179/4	रयोतवारी	मनाई	215	थिरु अरुमुगम पुत्र थानगाम
				180/1	सरकारी	पोरमबोक	6464	लायान्काराई

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				181	रयोतवारी	शुष्क	1852	कावेरि अधिकारी अरुलमीगु नाथासामी कोइल थिरुप्पाराईथुराई
				184/1	सरकारी	पोरमबोक	2567	लायान्काराई
				185	रयोतवारी	नम	733	अरुलमीगु पैल्लाईयार कोइल
				187	रयोतवारी	शुष्क	29	1. कार्यकारी अधिकारी अरुलमीगु थागावानेश्वरार थिरुक्कोईल 2. थिरु सनधानाम पुत्र मुथु मरुधाई 3. थिरु कृष्णासामी नादर पुत्र अयासामी नादर
				190/2	सरकारी	पोरमबोक	40	वान्दी पाथाई
				237	सरकारी	पोरमबोक	61	काउवेरी नदी
				250/4	सरकारी	मनाई	2	1. श्रीमति बोमा पत्नी दुराईराज 2. श्रीमति शीलारानी पत्नी रामाकृष्णन 3. थिरु विवेकानन्दान 4. थिरु एस शिवकुमार थीनिवासन के पुत्र
				250/8	सरकारी	मनाई	1	पब्लिक लेन
				250/9	सरकारी	मनाई	1	थिरु के मारुथामुथु
				250/11	सरकारी	मनाई	1	थिरु सेल्लान्दी पुत्र थिरु सुक्कीरान
				250/17	सरकारी	मनाई	1	थिरु शिवनानदाम पुत्र वीरामलाई
				250/18	सरकारी	मनाई	2	थिरु विश्वनाथन पुत्र दुराईयामी
				250/21	सरकारी	मनाई	8	1. थिरु वदीवेल पुत्र मारुथाई 2. थिरु मनीकाम्माल पत्नी नटेशन
				250/22	सरकारी	मनाई	140	थिरु एन मुथुसामी
				251/2	सरकारी	मनाई	49	पैदल रास्ता
				251/3	सरकारी	मनाई	5	थिरु वीरामलाई
				251/4	सरकारी	मनाई	16	थिरु गोवथामान पुत्र वैयाली
				251/7	सरकारी	मनाई	21	1. श्रीमति वीराई पत्नी थंगाईयान 2. थिरु सन्नासी पत्नी थंगाईयान
				251/9	सरकारी	मनाई	2	खाली जगह नाथम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				251/10	सरकारी	मनाई	10	श्रीमति अलामेलु पत्नी धारमार
				251/11	सरकारी	मनाई	5	थिरु थंगाईयान पुत्र रेथीनागीरि
				251/12	सरकारी	मनाई	16	थिरु वैयाली पुत्र मरुथामुथु
				251/13	सरकारी	मनाई	6	थिरी वीरामुथु
				251/17	सरकारी	मनाई	18	टी एन वी गोवथाम्माल पुत्र वैयाली
				251/18	सरकारी	मनाई	10	पट्टादार थिरु मुरुगन पुत्र वदीवेल, अरुलमीगु मरीयाम्माल कोईल, थिरुप्पाराईथुराई
				251/21	सरकारी	मनाई	1	पैदल रास्ता
				251/22	सरकारी	मनाई	13	खाली जगह नाथम
				251/24	सरकारी	मनाई	4	थिरु आर रामासामी
				251/26	सरकारी	मनाई	7	श्रीमति राजामनी पत्नी परमाशिवम
				251/27	सरकारी	मनाई	7	पब्लिक लेन
		(8)अथानल्लूर		44	सरकारी	पोरमबोक	150	कराई कलाम
				46/2	रयोतवारी	नम	189	थिरु महामुनी पुत्र अन्नावी मुथीरीयार
				46/3ए	रयोतवारी	नम	539	थिरु पेरीयासामी पुत्र रंगासामी
				46/3बी	रयोतवारी	नम	32	थिरु पित्ताई पुत्र पोन्नामबालाम
				46/5	रयोतवारी	नम	748	थिरु पेरीयासामी पुत्र रंगासामी
				47/4	सरकारी	पोरमबोक	300	वैक्काल
				47/7	रयोतवारी	नम	190	थिरुवपाथी अम्मान कोईल थिरु पेरीयासामी पुत्र मनीकम
				47/8	रयोतवारी	नम	308	थिरु महामुनी मुथीरीयार पुत्र अन्नावी मुथीरीयार
				49/1	सरकारी	पोरमबोक	175	वैक्काल
				49/6बी	रयोतवारी	नम	475	1. थिरु वीरामलाई 2. थिरु शंकान 3. थिरु अयासामी नादर
				49/7	रयोतवारी	नम	344	थिरु मरीयाप्पान पुत्र कृष्णन
				50/2	रयोतवारी	नम	295	थिरु श्रीनिवासन पुत्र रामासिंगम
				50/3	रयोतवारी	नम	162	1. थिरु निलामेगम पुत्र पेरीयासामी 2. थिरु मरुथामुथु पुत्र मनीकाम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				50/7	रयोतवारी	नम	299	थिरु वीरमलाई पुत्र शंकान
				53/1	सरकारी	पोरमबोक	56	वैक्काल
				53/7ए	रयोतवारी	नम	270	श्रीमति पेरीयाक्काल पत्नी शनकान मोपान
				53/7बी	रयोतवारी	नम	408	श्रीमति नाल्लाम्माल पत्नी रामन
				50/1	सरकारी	पोरमबोक	18	वैक्काल
				60/5ए	रयोतवारी	नम	2650	थिरु कथन पुत्र अलागान
				60/5बी	रयोतवारी	नम	225	श्रीमति पलानियम्माल पत्नी सुबारायान
				63/1	सरकारी	पोरमबोक	26	वैक्काल
				63/2	रयोतवारी	नम	497	थिरु रामारथिनाम पुत्र राजारथिनाम
				63/3ए	रयोतवारी	नम	2	थिरु रासा मुथिरीयार पुत्र ओली मुथिरीयार
				66/2	रयोतवारी	नम	482	श्रीमति सरोज पत्नी जेगनथान
				66/3	रयोतवारी	नम	431	थिरु जेगननाथन पुत्र सुन्नाम पिल्लै
				66/4	रयोतवारी	नम	438	श्रीमति कलावती पत्नी बालामुथु
				66/5	रयोतवारी	नम	30	थिरु थंगावेल पिल्लै पुत्र सुब्रामणियन
				66/6ए	रयोतवारी	नम	152	श्रीमति पट्टाई पत्नी मालाईयालाम
				66/6बी	रयोतवारी	नम	53	थिरु वीरामुथु पुत्र कान्दान
				67/1	रयोतवारी	नम	156	श्रीमति सुजाता पत्नी सुब्रुथेथीनाम
				67/3ए	रयोतवारी	नम	115	थिरु सुब्रामणियन पुत्र पलानियाप्पा नादर
				67/3बी	रयोतवारी	नम	90	थिरु मरीमुथु नादर पुत्र करुप्पाईया
				71/1	सरकारी	पोरमबोक	97	वैक्काल
				71/3ए	रयोतवारी	नम	54	थिरु विश्वनाथन पुत्र सुब्रामणियन वथीयार
				71/3बी	रयोतवारी	नम	26	थिरु रामादुराई पुत्र सुब्रुसामी
				71/3सी	रयोतवारी	नम	88	श्रीमति माथीयालागी पत्नी मुथुसामी
				74/2सी2	रयोतवारी	नम	52	थिरु अशोक राजा पुत्र सी ए बालन
				82/4ए	रयोतवारी	नम	161	1. थिरु नागराजन पुत्र वैथीलिगम 2. श्रीमति धानाम पत्नी अंदी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								3. श्रीमति राजामनी पत्नी नागाराजन
				82/4बी	रयोतवारी	नम	193	थिरु पेरीयान्नान पुत्र वैथीलिंगा असारि
				83/1	रयोतवारी	नम	55	थिरु सेन्थीलकुमार पुत्र सेलवाराज
				85/1	रयोतवारी	नम	25	थिरु वीरामुथु पुत्र वेलु
				86/3बी	रयोतवारी	नम	90	थिरु नटराजन पुत्र मरुथाई
				86/3सी	रयोतवारी	नम	75	अलामेलु अम्माल
				86/3डी	रयोतवारी	नम	144	श्रीमति अन्नाधानम पत्नी शानमुगम
				88/2ए	रयोतवारी	नम	649	श्रीमति मनीमेगालाई पत्नी सनगीलि
				88/2बी	रयोतवारी	नम	395	थिरु अनागामुथु पुत्र मुनीयान्दी
				88/3	रयोतवारी	नम	522	थिरु सथयादीपान पुत्र गणेशन
				91/2	रयोतवारी	नम	41	श्रीमति नागाम्माल पत्नी नाशयणसामी
				92/5	रयोतवारी	नम	13	श्रीमति उषा रानी पत्नी सेलवाराज
				191/3	सरकारी	पोरमबोक	2774	वैक्काल
				193/1ए	रयोतवारी	शुष्क	36	थिरु काथीरवेल पुत्र मालाईयाला मुथिरियार
				193/1सी	रयोतवारी	शुष्क	11	लेन
				193/1डी	रयोतवारी	शुष्क	68	श्रीमति कामतचाङ्गम्माल पत्नी कर्तिवेल
				193/1ई	रयोतवारी	शुष्क	13	थिरु राजेन्द्रन पुत्र कर्तिवेल मुथिरियार
				193/1जी	रयोतवारी	शुष्क	47	थिरु करुप्पान्नान पुत्र धारमार
				193/1एच	रयोतवारी	शुष्क	51	थिरु थियागराजन पुत्र मुथुकाथान
				193/1आई	रयोतवारी	शुष्क	11	लेन
				193/1जे	रयोतवारी	शुष्क	25	थिरु अरुमुगम पुत्र मुथुवीरान
				193/1के	रयोतवारी	शुष्क	25	श्रीमति शिवगामी पत्नी वदीवेल
				193/1एल	रयोतवारी	शुष्क	8	लेन
				193/1एम	रयोतवारी	शुष्क	43	थिरु रामु पुत्र माल्लान
				193/1एन	रयोतवारी	शुष्क	40	थिरु सुब्रामणियन पुत्र माल्लान
				193/1ओ	रयोतवारी	शुष्क	7	थिरु सान्नासी पुत्र वीरप्पान
				193/1पी	रयोतवारी	शुष्क	29	थिरु मलाईयालाम पुत्र पेरीयारामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				193/1क्यु	रयोटवारी	शुष्क	33	श्रीमति चिन्नाम्माल पत्नी थिरु कैलाशम
				193/1आर	रयोटवारी	शुष्क	53	थिरु सेट्टु पुत्र गनापथी
				193/1एस	रयोटवारी	शुष्क	50	1. थिरु करुप्पान्नान 2. थिरु मुथुकाथान 3. थिरु मरुथामुथु पेरीयासामी मुथिरीयार के पुत्र
				193/1टी	रयोटवारी	शुष्क	5	लेन
				193/1यु	रयोटवारी	शुष्क	23	थिरु अरीयान पुत्र सन्नासी
				193/1वी	रयोटवारी	शुष्क	5	लेन
				193/1उबल्लु	रयोटवारी	शुष्क	17	थिरु मुथु पुत्र वीरप्पान
				193/1एक्स	रयोटवारी	शुष्क	44	थिरु पठान पुत्र काथान मुथिरीयार
				193/1वाई	रयोटवारी	शुष्क	24	1. थिरु वेलायुथाम 2. थिरु अरुमुगम , मालाईयालाम के पुत्र
				193/1जेड	रयोटवारी	शुष्क	4	लेन
				193/1एए	रयोटवारी	शुष्क	20	1. थिरु चोकाळिगम 2. थिरु मुथ्थान 3. थिरु रेथिनाम, महामुनी के पुत्र
				193/2ए	रयोटवारी	शुष्क	5	लेन
				193/2बी	रयोटवारी	शुष्क	16	थिरु सगापिल्लै पुत्र वीरामलाई
				193/2सी	रयोटवारी	शुष्क	20	खाली जगह
				193/2ई	रयोटवारी	शुष्क	35	श्रीमति पाप्पाथीयम्माल पत्नी पोन्नान
				193/2एफ	रयोटवारी	शुष्क	23	खाली जगह
				193/2जी	रयोटवारी	शुष्क	5	थिरु गोपाल पुत्र रामु
				223/1	रयोटवारी	शुष्क	880	थिरु मनी पुत्र मटेशन
				223/2	सरकारी	पोरमबोक	274	वैक्काल
				223/8	रयोटवारी	नम	1705	थिरु वी श्रीनिवासन ईयेर
				224/1ए	रयोटवारी	शुष्क	694	थिरु श्रीनिवासन पुत्र कृष्णासामी ईयेर
				224/1बी	रयोटवारी	शुष्क	370	श्रीमति बालामती पत्नी रविन्द्रन
				224/2	रयोटवारी	शुष्क	88	थिरु वैयामलाई पुत्र पलानियान्दी
				225/1ए	रयोटवारी	नम	2896	मरीयाई अम्माल
				225/1बी	रयोटवारी	नम	1000	अरुलमीगु गोपालकृष्णन स्वामी कोईल
				226/4	रयोटवारी	नम	47	थिरु वी श्रीनिवासन ईयेर
				227	सरकारी	पोरमबोक	307	वैक्काल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				228/5	रयोतवारी	नम	682	थिरु रामाकृष्णन ईयर
				228/7	रयोतवारी	नम	447	थिरु रविचन्द्रन पुत्र वैकाटारामन
				233/7	रयोतवारी	नम	129	श्रीमति गीता पत्नी जामबुनाथा ईयर
				233/8	रयोतवारी	नम	21	मनीमेगालाईयम्माल
				234/2	रयोतवारी	नम	2201	श्रीमति पितवाईम्माल पत्नी धर्मालिंगम
				237	सरकारी	पोरमबोक	45	वैक्काल
				268/3	सरकारी	पोरमबोक	5402	वैक्काल
				331/1	रयोतवारी	नम	325	श्रीमति गीता पत्नी जामबुनाथा ईयर
				331/2	रयोतवारी	नम	79	थिरु जामबुनाथा इयर पुत्र नारायणसामी
				331/3	रयोतवारी	नम	159	थिरु सुब्रामणियन पुत्र सेधु ईयर
				331/4	रयोतवारी	नम	55	थिरु रामासामी पुत्र सुब्रामणियन
				331/5	रयोतवारी	नम	110	दवाघासी काटटालाई धर्मा अंधानल्लुर
				331/6	रयोतवारी	नम	16	श्रीमति कामतची पुत्री पेरीयासामी पुत्री स्व मरीमुथु
				331/7	रयोतवारी	नम	27	श्रीमति कामतची पुत्री पेरीयासामी पुत्री स्व मरीमुथु
				332/1	सरकारी	पोरमबोक	14	वैक्काल
				332/3	रयोतवारी	नम	175	थिरु श्रीनिवासन पुत्र शंकरा मेशवारार ईयेनकार
				332/5	रयोतवारी	नम	644	अरुलमिगु गोपालकृष्णन स्वामी कोईल
		(9). पेरुगामनी		7/2	सरकारी	पोरमबोक	9113	कराई
				19/4बी	रयोतवारी	नम	37	श्रीमति आर विजय पत्नी रथिनाम
				19/4सी	रयोतवारी	नम	34	श्रीमति एम मल्लिका पत्नी मुथु
				19/4डी	रयोतवारी	नम	12	थिरु एस राजागोपाल पुत्र सरनगावनी
				126/1	सरकारी	पोरमबोक	1666	कराई
				127/1	सरकारी	पोरमबोक	34	पैदल रास्ता
				127/2ए1	रयोतवारी	शुष्क	25	1. थिरु जगननाथन पुत्र चोजान 2. श्रीमति मोक्काई पत्नी स्व राजागोपाल 3. थिरु परमाशिवम पुत्र स्व अन्नावी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				127/2ए2	सरकारी	मनाई	69	थिरु संगापिल्लै पुत्र वीरामलाई
				127/2ए3ए	रयोतवारी	शुष्क (मनाई)	17	थिरु रामन पुत्र मरुधामुथु
				127/3	रयोतवारी	शुष्क (मनाई)	155	1. थिरु सेथुरामन प 2. थिरु वैकाटारामन, रामासामी के पुत्र 3. थिरु कुमार पुत्र रंगानाथन
				127/4	रयोतवारी	शुष्क (मनाई)	94	थिरु एस रामाकृष्णन
				127/5	रयोतवारी	शुष्क (मनाई)	99	थिरु रामु पिल्लै पुत्र कथापेरुमल
				127/6	रयोतवारी	शुष्क (मनाई)	117	थिरु एम सुन्नाम
				127/7	रयोतवारी	शुष्क (मनाई)	92	थिरु कामतचीम्माल पत्नी सुन्नाम पिल्लै
				127/8	रयोतवारी	शुष्क (मनाई)	216	1. टी लोगम्मबाल 2. टी कमलाम्माबाल
				127/9	रयोतवारी	शुष्क (मनाई)	214	नागास्थीनाम
				127/10	रयोतवारी	शुष्क (मनाई)	95	थिरु सामीदास पुत्र रामाईया नादर
				127/11	रयोतवारी	शुष्क (मनाई)	126	श्रीमति पांगाजावल्ली पत्नी मनीकाम
				127/12	रयोतवारी	शुष्क (मनाई)	151	थिरु बालान नादर
				127/13	रयोतवारी	शुष्क (मनाई)	251	थिरु अरुनामीरि
				127/2बी	रयोतवारी	शुष्क (मनाई)	31	श्रीमति राजाम्माल पत्नी रामासामी
				127/2सी1ए	रयोतवारी	शुष्क (मनाई)	2	थिरु एम कालीयापेरुमल पुत्र मान्दाईयान चेट्टीयार
				127/2सी1बी	रयोतवारी	शुष्क (मनाई)	169	1. थिरु गणपति चेट्टीयार पुत्र वेल्लाईयान चेट्टयार 2. थिरु सामीदास पुत्र रामाईया नादर
				127/2सी1सी2	रयोतवारी	शुष्क (मनाई)	270	थिरु सीताईयान पुत्र गननाप्पान
				127/2सी3ए	सरकारी	मनाई	231	1. श्रीमति अम्माईक्काल पत्नी पलानियान्दी 2. थिरु कुमार पुत्र थंगावेलु
				127/2सी3बी	सरकारी	मनाई	19	थिरु थियागरासन पुत्र अयाकान्नु
				127/2सी4ए	रयोतवारी	शुष्क (मनाई)	40	थिरु थियागरासन पुत्र अयाकान्नु
				127/2सी4बी	रयोतवारी	शुष्क (मनाई)	60	थिरु रामासामी पुत्र अयाकान्नु
				127/2सी5ए	सरकारी	मनाई	25	थिरु रामासामी पुत्र अयाकान्नु
				127/2सी5बी	सरकारी	पोरमबोक	25	पैदल रास्ता

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				127/2सी6	सरकारी	मनाई	50	थिरु पेरुमल पुत्र वीरामलाई
				127/2सी7ए	रयोतवारी	शुष्क (मनाई)	40	थिरु नटराजन पुत्र पेरीयासामी पिल्लै
				127/2सी7बी	रयोतवारी	शुष्क (मनाई)	10	पेदल रास्ता
				128/2	सरकारी	पोरम्बोक	4455	लायांकराई
				145/1ई	रयोतवारी	शुष्क (मनाई)	12	श्रीमति साबीयाबीबी पत्नी थास्थाकीर
				145/1एफ	रयोतवारी	शुष्क (मनाई)	18	1. थिरु राम्माकृष्णन पुत्र रासु 2. थिरु जयरामन पुत्र रासु
				145/1जी	रयोतवारी	शुष्क (मनाई)	11	1. थिरु माथुकरुप्पान पुत्र वीरामलाई 2. थिरु शंकर पुत्र वीरामलाई
				145/1एच	रयोतवारी	शुष्क (मनाई)	8	थिरु के पेरीयासामी पुत्र काथान
				145/1आई	रयोतवारी	शुष्क (मनाई)	14	पंचायत युनियन मिडल स्कूल पेरुगामनी
				145/2	रयोतवारी	शुष्क (मनाई)	24	1. थिरु भोन्नुवेल पिल्लै पुत्र मरीयप्पा पिल्लै 2. श्रीमति रेनुका पत्नी स्व कल्याणसुन्दम
				145/3ए	रयोतवारी	शुष्क (मनाई)	302	1. श्रीमति रेनुका पत्नी स्व कल्याणसुन्दम 2. थिरु अरुमुगम पुत्र वीरामलाई 3. थिरु मुरुगेशन पुत्र अन्नावी 4. थिरु वीरामली पुत्र अन्नावी 5. थिरु अयादुराई 6. थिरु मालायालाम पुत्र स्व करुप्पाणान 7. थिरु शकुल हमीद पुत्र बावासाहिब 8. थिरु सुन्दराम पुत्र मरुथामुथु 9. थिरु पी एस राजारथिनाम पुत्र सुब्रामणिया पिल्लै 10. थिरु मुरुगानानदाम पुत्र सुब्रामणिया पिल्लै 11. थिरु पांजावारनाम पत्नी स्व मालाईयालाम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								12. श्रीमति सारधा पत्नी राजारथिनाम
								13. थिरु सीनियम्माल पत्नी मालाईयालाम
								14. श्रीमति अकीलानदाम पत्नी सान्नासी
								15. थिरु रासु पुत्र मुथुवीरान
								16. थिरु सुन्दराम पुत्र मरुधामुथु
								17. थिरु अन्नावी पुत्र मरुधामुथु
								18. थिरु शंकर पुत्र दुराईयाप्पान
				145/3बी	सरकारी	पोरमबोक	98	नाथम
				145/3डी	सरकारी	मनाई	80	थिरु करुप्पान्नान पुत्र थंगाईयान
				145/3ई	सरकारी	मनाई	45	थिरु अरुमुगाम पुत्र वीरामलाई
				145/3के	सरकारी	मनाई	57	श्रीमति थाईलाम्माई पत्नी अरुमुगाम
				145/3एच	सरकारी	मनाई	59	थिरु अन्नावी पुत्र वीरामलाई
				145/3एम	सरकारी	मनाई	87	श्रीमति सारधा पत्नी राजारथिनाम
				145/3 ओ	सरकारी	मनाई	101	थिरु अरुमुगाम पुत्र थंगामुथु
				145/3पी	सरकारी	मनाई	102	थिरु पेरीयन्नान पुत्र नटेशन
				145/3टी	सरकारी	मनाई	112	श्रीमति पाप्पाथी पत्नी मरीयाप्पान
				145/3यु	सरकारी	मनाई	94	थिरु मुथान पुत्र मावादीयान
				145/3वी	सरकारी	मनाई	94	थिरु मुथान पुत्र मावादीयान
				145/3डबल्यु	सरकारी	मनाई	317	थिरु मुथान पुत्र मावादीयान
				145/5एच	रयोतवारी	शुष्क (मनाई)	64	थिरु रामानाथम पुत्र वैकाटारामा ईयर
				148ए/14	सरकारी	पोरमबोक	53	पाल्लीवासल
				148ए/15	सरकारी	मनाई	71	थिरु गोविन्दाराज पुत्र पलानियान्दी
				148ए/16	सरकारी	मनाई	72	1. थिरु कुमारवेलान पुत्र अरुमुगाम थिरु सुब्रामणियन पुत्र अरुमुगाम
				148ए/17	सरकारी	मनाई	192	1. श्रीमति बोबीयम्माल पत्नी महामुनी 2. थिरु अन्नावी पुत्र स्व सुब्रामणियन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								3. श्रीमति आर सुशीला पत्नी राजागोपाल
				148ए/19	सरकारी	मनाई	83	1. थिरु श्रीधर 2. थिरु रमेश 3. थिरु सुरेश, शानमुगासुन्दम के पुत्र
				148ए/20	सरकारी	मनाई	91	श्रीमति मालाकोडी पत्नी राजाप्यान
				148ए/23	सरकारी	मनाई	51	राजासोउन्द्रया पुत्री नादानामुर्छि
				148ए/24	सरकारी	मनाई	59	थिरु शानमुगमा पुत्र स्व सुब्रामणियन पुत्र स्व धनालक्ष्मी
				148ए/33	सरकारी	पोरमबोक	71	अरुलमीगु म्मुरुगन कोईल सामीयार मादम
				148ए/34	सरकारी	मनाई	146	थिरु नादानामुर्छि नादर पुत्र अप्पावु नादर
				148ए/35	सरकारी	पोरमबोक	38	पैदल रास्ता
				148ए/36	सरकारी	पोरमबोक	108	अरुलमीगु विश्वनाथार कोईल
				148ए/37	सरकारी	पोरमबोक	135	पैदल रास्ता
				148बी/1	सरकारी	पोरमबोक	235	कोविल
				148बी/3	सरकारी	मनाई	4	थिरु सेन्थीलकुमार पुत्र थंगादुराई नादर
				148बी/4	सरकारी	मनाई	38	थिरु राजारथिनाम पुत्र सुब्रामणियन
				148बी/5	सरकारी	मनाई	37	1. थिरु वेलायुथाम पिल्लै पुत्र गुरुसामी पिल्लै 2. थिरु बालाकृष्णन पुत्र सुब्रामणियन
				148बी/6	सरकारी	मनाई	69	1. थिरु अबदुल अजीज 2. थिरु अबदुल सत्तार रेशबशा रोवथेर के पुत्र
				148बी/7	सरकारी	मनाई	39	थिरु पलानिसामी पिल्लै पुत्र सुब्बाईया पिल्लै
				148बी/8	सरकारी	मनाई	84	1. थिरु श्रीधर 2. थिरु रमेश 3. थिरु सुरेश, शानमुगासुन्दम के पुत्र
				148बी/9	सरकारी	मनाई	37	श्रीमति नागारथिनाम पुत्र अप्पासामी
				148बी/10	सरकारी	मनाई	153	1. थिरु पनीरसेलवम 2. थिरु अनगुसेलवम, सुब्रामणीया पिल्लै के पुत्र

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				148बी/11	सरकारी	मनाई	80	श्रीमति मरीयाई पत्नी साप्पानी
				148बी/12	सरकारी	मनाई	42	1. थिरु मुथु 2. थिरु दुराई, करुमबाचालाम के पुत्र
				148बी/13	सरकारी	मनाई	77	श्रीमति पोवाई अम्माल पत्नी रथिनाम पिल्लै
				148बी/14	सरकारी	मनाई	58	थिरु रामदास पुत्र सवारीमुथु
				148बी/15	सरकारी	मनाई	58	थिरु गोपीनाथा राव पुत्र अनान्धा राव
				148बी/16	सरकारी	मनाई	30	1. थिरु अंबाजागान 2. थिरु मरीमुथु 3. थिरु दुराईसामी कुप्पुसामी के पुत्र
				235/38	सरकारी	मनाई	18	थिरु पेरीयासामी पुत्र मुथु
				235/39	सरकारी	मनाई	64	पराईमरी एग्रीकल्चरल को ओपरेटिव बैंक थिरुप्पाराइथुराई
				235/40	सरकारी	मनाई	11	थिरु श्रीनिवासन पुत्र देवरु गुप्ता 2. श्रीमति वानाजा पत्नी श्रीनिवासन 3. थिरु श्रीनिवासन पुत्र देवरु गुप्ता
				235/41	सरकारी	मनाई	21	थिरु श्रीनिवासन पुत्र देवरु गुप्ता
				235/42	सरकारी	मनाई	33	श्रीमति पेरीयाक्काल पत्नी करुप्पान्ना
				235/43ए	सरकारी	मनाई	17	थिरु नागाराजन पुत्र कुजानदाई वेलु
				235/43बी	सरकारी	मनाई	11	थिरु जलालुदीन पुत्र अबदुल रजाक
		(10)सिरुगामनी पुर्व		9/10	सरकारी	मनाई	77	1. थिरु राम्मानाथन 2. थिरु पत्तानियाप्पा चेट्टीयार 3. थिरु अरुमुगाम चेट्टीयार, नटेशन चेट्टीयार के पुत्र 4. थिरु सुब्रामणियन 5. थिरु गणपति 6. थिरु शानमुगाम, रामालिंगम चेट्टीयार के पुत्र
				228/35	सरकारी	मनाई	55	1. थिरु मनी 2. थिरु कृष्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								3. थिरु थंगाराज, अय्यनान के पुत्र
				234/85	सरकारी	मनाई	78	थिरु मरुधामुथु पुत्र मालाईयालाम
				234/87	सरकारी	मनाई	109	थिरु सुन्दराराजन पुत्र मरीमुथु
		(11) सिरुगामनी पश्चिम		143/2ए1	रयोतवारी	शुष्क	38	1. श्रीमति एस राजामनी पत्नी सुन्दराम चेट्टीयार 2. थिरु मुथु पुत्र सुब्रामणिन चेट्टीयार 3. थिरु करुमबाचालाम पुत्र चिन्नाईया पिल्लै
				165/6	रयोतवारी	मनाई	44	अरुलमिगु पट्टाबी रामासामी बाजानाई मडम और 27 अन्य
		(12) के सत्तानूर उत्तर	एपी/1	टीएस 1/2	निजी	शुष्क	390	टी डबल्यु ए डी बोर्ड
				टीएस 1/3	सरकारी	पोरमबोक	232	एन के एच एल सी काटटालाई वैक्काल
				टीएस 1/4	सरकारी	पोरमबोक	435	एन के एच एल सी काटटालाई वैक्काल
				टीएस 1/9	निजी	शुष्क	21903	टी डबल्यु ए डी बोर्ड
		(13) पेरट्टीयूर पूर्व	एजे/22	टीएस 2/5	निजी	शुष्क	9721	टी डबल्यु ए डी बोर्ड
		(14) पेरट्टीयूर पश्चिम	एएम/31	टीएस 7/1बी	निजी	शुष्क	79	श्रीमति राजाम्माल पत्नी रामासामी
				टीएस 8/1	निजी	शुष्क	3129	थिरु सुब्बाईयान पुत्र कुलान्दाई बालान्दार

[फा. सं. भाराप्र/11013/2009/एलए/नोटिफ./पीआईयू-करूर]

माया प्रकाश, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2012

S.O. 2794(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways S.O.2647 (E), dated 25.11.2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.67, on the stretch of land from Km. 135+800 to 166+400 (Including bypass) (Trichy – Karur section) in Tiruchirappalli District in the State of Tamil Nadu;

And, whereas the substance of the said notification has been published in "The New Indian Express", and "Daily Thanthi", both dated the 22.01.2012 under sub-section (3) of Section Additional 3A of the said Act;

And whereas, no objection has been received from any person by the Competent Authority;

And, whereas, in pursuance of sub – section (1) of Section Additional 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted his report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section Additional 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of Sub-section (2) of Section Additional 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 135.800 to Km. 166/400 (Including Bypasses) (Trichy-Karur section) of the National Highway No.67 in the State of Tamil Nadu

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Ward / Block number.	Survey / Sub division number	Type of land	Nature of land	Area (in square metres)	Name of the Land owners/ person interested
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Tiruchi rappalli	Sri Rangam	1. Mekkudi		156	Ryotwari	Dry	685	Thiru Ulagapillai S/o Kuppusamy Pillai (1) Thiru Srinivasan Pillai (2) Thiru Thambusamy Pillai (3) Thiru Natesa Pillai (4) Thiru Shanmugam Pillai (5) Thiru Narayanasamy Pillai (6) Thiru Appu Pillai (7) Thiru Kunju Gounder (8) Thiru Vadivel Pillai (9) Thiru Sambasivam Pillai (10) Thiru Kanagasabai Pillai (11) Saradhambal (12) Saraswathi Ammal (13) Thiru Katha Perumal (14) Sornathammal (15) Thiru Ramalingam Pillai (16) Thiru Muthukaruppa Pillai (17) Thiru Nataraja Iyer (18) Thiru Krishnamoorthy Iyer (19) Thiru Venugopal Gounder (20) Thiru Thandavaraya Pillai (21) Thiru Rasu S/o Periyasamy (22)

1	2	3	4	5		6	7	8	9
					157/1	Ryotwari	Wet	2215	Thiru Alagar S/o Manickam
					157/2	Government	Wet	3065	Thiru Periyasamy S/o Manickam
					159/2	Government	Wet	9	Thiru Vijayaraghavan (1) Thiru Sakthivinayagam (2) S/o Arunachalam Pillai.
					158	Government	Poramboke	485	Vaikkal Poramboke
			2. Perur	--	46/3	Ryotwari	Wet	915	Thiru Vasaudevan S/o Paramasivam (1) Thiru Kalikaruppan S/o Mookan Muthiriyar (2)
					48/1	Ryotwari	Wet	514	Thiru Panchavamam S/o Velu
					48/2	Ryotwari	Wet	205	Thiru Panchavamam S/o Velu
					48/5	Ryotwari	Wet	41	Thiru Kalikaruppan S/o Mookan Muthiriyar (1) Thiru Marimuthu S/o Mookan Muthiriyar (2) Tmt. Pappathi W/o Neelamegam (3)
					89/2	Ryotwari	Wet	750	Thiru Ponnar S/o Late Appunan (1) Tmt. Thulasi W/o
					90/3	Ryotwari	Wet	380	Tmt. Navaneetham W/o Shanmugam
					90/4	Ryotwari	Wet	215	Tmt. Pushpathammal W/o Chidambaram
					90/5	Ryotwari	Wet	216	Thiru Kailasam W/o Marudhai
					90/6	Ryotwari	Wet	47	Thiru Shanmugam S/o Kandan
					90/7	Ryotwari	Wet	27	Thiru Jeyabal S/o Chinnaiyan (1) Tmt. Vasantha W/o (Late) Kothari
					91/1	Ryotwari	Wet	69	Thiru Manivannan S/o Rajamanickam
					91/2	Ryotwari	Wet	45	Thiru Manivannan S/o Rajamanickam
					91/4	Ryotwari	Wet	550	Thiru Manivannan S/o Rajamanickam
					91/5	Ryotwari	Wet	300	Thiru Chandrasekar C/o Ponnar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				92/6	Ryotwari	Wet	24	Thiru Padmanathan S/o Chidambaram (1) Thiru Manivannan S/o Rajamanickam (2)	
				47/3B	Government	Poramboke	393	Natham	
				55/1	Government	Poramboke	127	Vaikkal	
				55/7	Government	Poramboke	92	Vaikkal	
				90/1	Government	Poramboke	9	Vaikkal	
			3. Mulli Karumbur	--	13/1	Government	Poramboke	245	Vaikkal
				20/2	Ryotwari	Wet	30	Thiru Ganesan S/o Rajan Muthiriyar (1) Thiru Thangaiyan S/o Rajamanickam Muthiriyar (2) Thiru Gnanasekar S/o Santhanam (3) Thiru Ponnai S/o Appunan (4)	
				24/3A	Ryotwari	Wet	1709	Thiru Prakasam S/o Rasu Muthiriyar	
				27	Ryotwari	Wet	1011	Thiru Ramachandran (1) Thiru Paramasivam (2) Thiru Periyasamy (3) Thiru Rasu (4) Thiru Mohanasekaram (5) Thiru Muruganandam (6) Thiru Soundararajan (7)	
				29/5	Ryotwari	Wet	1033	Tmt Athilakshmi W/o Nallathambi (1) Tmt.Vasantha W/o (Late) Thothathiri Rao (2)	
				32/1	Government	Poramboke	23	Kuttai	
				32/2	Ryotwari	Wet	74	Thiru Gnanasekaran	
				32/6	Ryotwari	Wet	186	Tmt Pappa W/o Adaikala Kathan	
				32/7	Ryotwari	Wet	4	Thiru R. Thiyagarajan	
				48/2B	Ryotwari	Wet	136	Thiru Mohanasekaram S/o Ramachandran	
				48/6	Government	Poramboke	69	Vaikkal	
				52/3	Ryotwari	Wet	1974	Thiru Paramasivam S/o Sangilimuthiriyar	

1	2	3	4	5		6	7	8	9
					52/4	Ryotwari	Wet	53	Thiru Ramar Muthuraja S/o Veeramalai Muthuraja
					52/8	Government	Poromb oke	31	Vaikkal
					54/1	Ryotwari	Wet	231	Thiru Paranjothi (1) Thiru Sivalingam (2) Thiru Selvaraj (3) Thiru Sundaralingam (4) Thiru Karthikeyan (5) Thiru Dhanapal (6) S/o Periyasamy Ambalakaran
					55/3	Ryotwari	Wet	434	Tmt Vanithavalli W/o Selvakumar
					56/5	Government	Poromb oke	201	Vaikkal
					62/1A	Ryotwari	Wet	281	Thiru Sangili (1) Thiru Ramar (2) Sons of Veeramalai Muthuraja
					62/2	Government	Poromb oke	91	Vaikkal
					118/2A	Ryotwari	Wet	140	Thiru Kandasamy S/o Kannusamy
					119/1	Ryotwari	Dry	141	Thiru Ragavendran, Trustee, Sri Varadharaja Perumal Koil, Mullikarumbur
					119/2	Government	Poromb oke	8	Pathway
					120/3	Government	Poromb oke	10729	Kattuvuri
					124/2	Ryotwari	Wet	257	Tmt. Padmavathi Ammal W/o Ramamoorthi (1) Thirunavukkarasu (2)
			4. Panjappur	AN-1	15/1	Ryotwari	Dry	242	Thiru Sivakumar S/o Venugopal
					15/2	Ryotwari	Dry	123	Thiru Sivakumar S/o Venugopal
				AN-2	4	Government	Dry	1591	Waste
					21	Government	Poramb oke	1306	Kulam
					22	Government	Poramb oke	54	Kulam
					38/1	Government	Poramb oke	20	Arulmigu Muniappankoil
					38/2	Ryotwari	Dry	100	Thiru Balasubramanian S/o Kandasamy Balandar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				38/3	Ryotwari	Dry	100	Thiru Vijayaraghavan (1) Thiru Sampath (2) Thiru K.R Krishnan (3) S/o Rengasamy Iyengar M/s Sahara India Commercial Corporation Ltd., (4)
				38/5	Ryotwari	Dry	265	Thiru Vijayaraghavan (1) Thiru Sampath (2) Thiru K.R. Krishnan (3) S/o Rengasamy Iyengar M/s Sahara India Commercial Corporation Ltd., (4)
				39	Government	Poramb oke	106	Vaikkal
				40/3	Government	Poramb oke	21	Vaikkal
				40/4	Government	Poramb oke	10	Vaikkal
				40/5	Ryotwari	Dry	57	Thiru Thangarasu (1) Thiru Purushothaman (2) Thiru Rajagopalan (3) S/o Arumugam
				40/6	Ryotwari	Dry	2334	Thiru Balasubmaniam S/o Palaniyandi
				41/3	Ryotwari	Dry	244	Thiru Balasubamani (1) Thiru Balamani (2) Thiru Thulasi Konar (3)
				41/4	Ryotwari	Dry	312	Balamaniammal (1) Selvam (2) Sons of Nagarajan
				41/5	Ryotwari	Dry	3120	Thiru Thangarasu (1) Thiru Purushothaman (2) Thiru Rajagopalan (3) S/o Arumugam
			5. Periya Karuppur	515/3	Ryotwari	Dry	524	Thiru S. Ambalavanan (1) Thiru S. Ulagappan Pillai (2) S. Sivaraj Pillai (3) Sons of Sachithanandham Pillai
				516/1	Ryotwari	Dry	130	Thiru Annadurai S/o Sachithanandham Pillai.
				516/2	Government	Poromb oke	269	Vaikkal

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				516/3	Ryotwari	Dry	1127	Thiru R. Sivaprakasam S/o Raghunatha Pillai (1) Thiru S. Annadurai Pillai (2) Thiru S. Dhanakodi Pillai (3) Thiru S. Ambalavanan S/o Sachithanandam Pillai (4)
				517/1	Ryotwari	Wet	640	Thiru Kathamuthu S/o Manickam
				517/2	Government	Poromb oke	113	Vaikkal
				517/3A	Ryotwari	Dry	120	Thiru Alagar S/o Manickam
				517/4	Ryotwari	Dry	70	Thiru Ulagapillai (1) Thiru Sivanesan (2) Thiru Sachithanandam (3) Thiru Sivaprakasam (4) S/o Raghunadha Pillai.
				517/5	Government	Poromb oke	187	Vaikkal
				519/1	Ryotwari	Wet	459	Thiru Ambalavanan (1) Thiru Ulagapillai (2) Thiru Sivaraj Pillai (3) Thiru Annadurai Pillai (4) Sons of Sachidhanandam Pillai Thiru Sivaprakasam S/o Raghunadha Pillai.
			6. Adavattur West	1/1	Ryotwari	Wet	50	Thiru Manivannan S/o Rajamanickam (1) Thiru Muruganandam S/o Rajamanickam (2)
				1/2	Ryotwari	Wet	20	Thiru Manivannan S/o Rajamanickam (1) Thiru Muruganandam S/o Rajamanickam (2)
				14/1	Ryotwari	Wet	400	Thiru Parimanam S/o Palaniyandi
				14/2A	Ryotwari	Wet	50	Thiru Parimanam S/o Palaniyandi
				14/2B	Ryotwari	Wet	37	Thiru Seit @ Adaikkan S/o Veeramalai

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				14/3	Ryotwari	Wet	389	Thiru Parimanam S/o Palaniyandi
				14/7A	Ryotwari	Wet	124	Tmt. Periammal W/o Periannan
				14/10	Ryotwari	Wet	18	Thiru Karuppayee W/o Kalingamuthu Raja
				15	Government	Poramp oke	321	Vaikkal
				17/2	Ryotwari	Pathwa y	44	Pathway
				17/3C	Ryotwari	Wet	19	Thiru Sukkiran S/o Rasalingam (1) Thiru M.R. Subramani (2)
				18/7F	Ryotwari	Wet	220	Thiru Periannan S/o Kundu Ambalakkaran
				18/8E	Ryotwari	Wet	25	Thiru K. Rajendran S/o Kamatchi
				18/10B	Ryotwari	Wet	4	Thiru Kamatchi S/o Periyasamy
				18/13A	Ryotwari	Wet	100	Thiru Kamatchi S/o Periyasamy
				18/13D	Ryotwari	Wet	9	Thiru Kamatchi S/o Periyasamy
				19/5E	Ryotwari	Wet	10	Thiru Renganathan S/o Selvaraj
				19/12	Ryotwari	Wet	45	Thiru Renganathan S/o Selvaraj
				19/20B	Ryotwari	Wet	50	Tmt. Kathayee Ammal W/o Thayuman
				25/9	Ryotwari	Dry	326	Thiru Jeyasimhan S/o Muruganandam
				28/4	Ryotwari	Wet	85	Thiru Maruthamuthu S/o Muthukathan
				28/5	Ryotwari	Wet	3	Thiru Arumugam S/o Muthukathan
				28/7A	Ryotwari	Wet	18	Thiru Kamatchi S/o Periyasamy
				28/7B	Ryotwari	Wet	2	Thiru Arumugam S/o Muthukathan
				28/8A	Ryotwari	Wet	205	Thiru Kamatchi S/o Periyasamy

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				28/9	Ryotwari	Wet	187	Thiru Kamatchi S/o Periyasamy
				28/10	Ryotwari	Wet	52	Thiru Kamatchi S/o Periyasamy
				28/12	Ryotwari	Dry	6	Thiru Anandan S/o Selvaraj (1) Thiru Madhan S/o Selvaraj
				28/13A	Ryotwari	Dry	222	Tmt. Nagalakshmi W/o Radhakrishnan
				28/13B	Ryotwari	Dry	34	Thiru Anandan S/o Selvaraj (1) Thiru Madhan S/o Selvaraj
				28/13C	Ryotwari	Dry	297	Thiru Ulakkan S/o Ulakkan
				28/13D	Ryotwari	Dry	504	Tmt. Pushpa N. Patel S/o Nandhu K. Patel
				29/7	Ryotwari	Dry	219	Thiru Madhan S/o Selvaraj
				29/8A	Ryotwari	Wet	2299	Tmt Nagalakshmi W/o Radhakrishnan
				29/9C	Ryotwari	Wet	106	Tmt. Mariyayee W/o Ganesan (1) Thiru Periyasamy S/o Marudhai (2) Thiru Muthukalai S/o Arumugam (3)
				30/1A1	Ryotwari	Dry	679	Thiru Sirajudheen S/o Mohideen Abdul Kadar
				89/12A	Ryotwari	Dry	40	Thiru Muthukaruppan S/o Marudhai (1) Thiru K. Periyannan S/o Kathan (2) Thiru Panaiyadi S/o Kathan (3)
				89/12B	Ryotwari	Dry	115	Thiru P. Kathan S/o Panayadi
				89/13A	Ryotwari	Dry	88	Tmt Sundarambal W/o Aynan
				89/13B	Ryotwari	Dry	81	Thiru Jeyaraman S/o Muthukrishnan
				90/2A	Ryotwari	Dry	59	Thiru Jeyaraman S/o Muthukrishnan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				90/2B	Ryotwari	Dry	102	Thiru Saminathan S/o (Late) Periyannan
				90/2C1	Ryotwari	Dry	35	Thiru Jeyasekaran S/o Singaravelu
				90/3A	Ryotwari	Dry	70	Tmt. Karuppayee W/o (Late) Kathan
				90/5	Ryotwari	Dry	34	Thiru Karuppayee W/o (Late) Kathan
				90/6	Ryotwari	Dry	42	Tmt. Chellammal W/o (Late) Parimanam
				90/12B1	Ryotwari	Dry	106	Thiru Kamatchi (1) Thiru Periyannan (2) Thiru Masi (3)
				90/12B2	Ryotwari	Dry	200	Tmt. Karuppayee S/o Arumugam
				90/12F	Ryotwari	Dry	65	Thiru Karuvayan S/o Muthukaruppan
				92/1	Ryotwari	Dry	49	Thiru Jeyaseelan (1) Thiru Rajan (2) S/o Antonysamy
				92/2	Government	Poramp oke	42	Vari
				101/3C3H	Ryotwari	Dry	44	Thiru Ayyavu Muthiriyar S/o Appavu Muthiriyar
				101/5	Ryotwari	Dry	27	Thiru Chinnayan S/o Maruthai
				101/6B	Ryotwari	Dry	294	Thiru Peraman (1) Thiru Periyannan (2) S/o Kathan
				101/9A	Ryotwari	Dry	1	Thiru Malaiyayee W/o (Late) Periannan
				103/3E	Ryotwari	Dry	110	Tmt. Ilamathi W/o Muthukalai
				103/3F	Ryotwari	Dry	1980	Tmt. Kamatchiammal W/o Manickam
				103/3G	Ryotwari	Dry	1270	Tmt. Ramayee @ Pappammal W/o Kandan (1) Thiru Sundarrajan (2) Thiru Thangavel (3) Sons of Kandan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				103/3H	Ryotwari	Dry	1380	Thiru Arumugam S/o Kandasamy (1) Faritha D/o Sheriff (2) Tmt. Boujiya Begam D/o Mohamed Sulthan (3) Thiru Abdul Kadar S/o Subja Sahib(4)
				104/1A2	Ryotwari	Dry	67	Thiru Kathamuthu S/o Parimanam
				104/1B	Government	Poramp oke	15	Vaikkal
				104/1C2A	Ryotwari	Dry	211	Tmt. Susila W/o Kathamuthu
				108/1A1	Ryotwari	Dry	85	Thiru Sekar S/o Palaniyandi
				109/1A1	Ryotwari	Dry	65	Thiru Kandasamy S/o Kannusamy
				109/1A2	Ryotwari	Dry	32	Thiru Kandasamy S/o Kannusamy
				109/1A3	Ryotwari	Dry	27	Tmt Hashmitha N Patel W/o Suresh N Patel
				109/1A4	Ryotwari	Dry	10	Thiru Murthi S/o Kannusamy
				110/1A1	Ryotwari	Dry	70	Tmt. Hasmitha N Patel W/o Suresh N Patel
				110/1A2	Ryotwari	Dry	27	Tmt. Hasmitha N Patel W/o Suresh N Patel
				110/1A3A	Ryotwari	Dry	23	Tmt. Pappa W/o Arumugam
				110/1B	Ryotwari	Dry	223	Tmt. Vijayalakshmi W/o Shanmugam (1) Thiru M.V.V Balasubramaniam (2)
				110/3B	Ryotwari	Dry	150	Tmt. Vijayalakshmi W/o Shanmugam (1)
				111/1B3A	Ryotwari	Dry	2027	Thiru Rajendran (1) Thiru Rajagopal (2) Thiru Ramakrishnan (3) Thiru Mathialangan (4) Thiru Sunderamoorthi (5) Sons of Nagarathinam

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				111/1B3B	Ryotwari	Dry	1180	Thiru Sekar S/o Palaniyandi
				111/1B3C	Ryotwari	Dry	305	Thiru Rajendran (1) Thiru Rajagopal (2) Thiru Ramakrishnan (3) Thiru Mathialangan (4) Thiru Sundaramoorthi (5) Sons of Nagarathinam
				111/3B1	Ryotwari	Dry	226	Thiru Seit (1) Thiru Chellaiah (2) Thiru Manoharan (3) S/o Ramalingam
				111/3B2	Ryotwari	Dry	2141	Thiru Manickam (1) Thiru Senthurvelan (2) Thiru Kathirvelu (3) S/o Palaniyandi
				111/3C1	Ryotwari	Dry	38	Thiru Seit (1) Thiru Chellaiah (2) Thiru Manoharan (3) S/o Ramalingam
				111/3C2	Ryotwari	Dry	2769	Tmt Ilamathi W/o Muthukalai
				111/3D2	Ryotwari	Dry	84	Tmt Renganayagiammal W/o Arumugam (1) Thiru Mohamed Sulthan S/o Kasim (2) Thiru Akbar Ali S/o Mohamed Kasim (3) Thiru Mohamed Hanifa S/o Mohamed Kasim
				111/2	Government	Poramp oke	305	Vaikkal
				112/2	Ryotwari	Dry	2447	Thiru Rajesh Kannan S/o Rengaraj
			7. Tiruppirai turai	4/10	Government	Poramb oke	2103	Ramavaithalai Pudu Vaikkal
				6/1	Government	Poramb oke	2822	Layankarai
				6/3	Ryotwari	Dry	41	Arulmigu Ayyanarswamy Koil
				7/1	Ryotwari	Wet	205	Thiru Muthurkrishnan S/o Rengarajan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				8/8	Government	Poramboke	161	Ramavaithalai Pudu Vaikkal
				15/9	Government	Poramboke	14	Ramavaithalai Pudu Vaikkal
				16/8	Government	Poramboke	50	Ramavaithalai Pudu Vaikkal
				17A/1	Government	Poramboke	521	Layankarai
				17A/2	Ryotwari	Dry	3297	Executive Officer, Arulmigu Nathasamy Koil
				17B/1A	Ryotwari	Dry	211	Paraithurai Nathasamy Koil
				178B/4	Government	Manai	2	Thiru Gowthaman S/o Vaiyali
				179/1	Ryotwari	Manai	20	Tmt. Lakshmi W/o Ganesan
				179/2	Ryotwari	Manai	335	Arulmigu Somanathasamy Koil
				179/3	Ryotwari	Manai	180	Tmt. Saraswathi W/o Veerasamy
				179/4	Ryotwari	Manai	215	Thiru Arumugam S/o Thangam
				180/1	Government	Poramboke	6464	Layankarai
				181	Ryotwari	Dry	1652	Executive Officer, Arulmigu Nathasamy Koil, Thirupparaithurai
				184/1	Government	Poramboke	2567	Layankarai
				185	Ryotwari	Wet	733	Arulmigu Pillaiyar Koil
				187	Ryotwari	Dry	29	Executive Officer, Arulmigu Thagavaneswarar Thirukkoil (1), Thiru Santhanam S/o Muthu Marudhai (2) Thiru Krishnasamy Nadar S/o Ayyasamy Nadar (3)
				190/2	Government	Poramboke	40	Vandi Padhai
				237	Government	Poramboke	61	Cauvery River

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				250/4	Government	Manai	2	Tmt. Booma W/o Durairaj (1) Tmt. Sheelarani W/o Ramakrishnan (2) Thiru Vivekanandan (3) Thiru S. Sivakumar (4) Sons of Srinivasan
				250/8	Government	Manai	1	Public Lane
				250/9	Government	Manai	1	Thiru K. Maruthamuthu
				250/11	Government	Manai	1	Thiru Sellandi S/o Thiru Sukkiran
				250/17	Government	Manai	1	Thiru Sivanandam S/o Veeramalai
				250/18	Government	Manai	2	Thru Viswanathan S/o Duraisamy
				250/21	Government	Manai	8	Thiru Vadivel S/o Maruthai (1) Thiru Manickammal W/o Natesan (2)
				250/22	Government	Manai	140	Thiru N. Muthusamy
				251/2	Government	Manai	49	Pathway
				251/3	Government	Manai	5	Thiru Veeramalai
				251/4	Government	Manai	16	Thiru Gowthaman S/o Vaiyali
				251/7	Government	Manai	21	Tmt. Veerayee W/o Thangaiyan (1) Thiru Sannasi S/o Thangaiyan
				251/9	Government	Manai	2	Vacant Site (Natham)
				251/10	Government	Manai	10	Tmt. Alamelu W/o Dharmar
				251/11	Government	Manai	5	Thiru Thangaiyan S/o Rethinagiri
				251/12	Government	Manai	16	Thiru Vaiyali S/o Maruthamuthu
				251/13	Government	Manai	6	Thiru Veeramuthu
				251/17	Government	Manai	18	T.N.V. Gowthaman S/o Vaiyali
				251/18	Government	Manai	10	Pattayadar Thiru Murugan S/o Vadivel, Arulmigu Mariyamman Koil, Thirupparaithurai

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				251/21	Government	Manai	1	Pathway
				251/22	Government	Manai	13	Vacant Site (Natham)
				251/24	Government	Manai	4	Thiru R. Ramasamy
				251/26	Government	Manai	7	Tmt. Rajamani W/o Paramasivam
				251/27	Government	Manai	7	Public Lane
			8. Anthanalur	44	Government	Poramp oke	150	Karai, kalam
				46/2	Ryotwari	Wet	189	Thiru Mahamuni S/o Annavi Muthiriyar
				46/3A	Ryotwari	Wet	539	Thiru Periyasamy S/o Rengasamy
				46/3B	Ryotwari	Wet	32	Thiru Pitchai S/o Ponnambalam
				46/5	Ryotwari	Wet	748	Thiru Periyasamy S/o Rengasamy
				47/4	Government	Poramp oke	300	Vaikkal
				47/7	Ryotwari	Wet	190	Thirowpathi Amman Koil Thiru Periyasamy S/o Manickam
				47/8	Ryotwari	Wet	308	Thiru Mahamuni Muthiriyar S/o Annavi Muthiriyar
				49/1	Government	Poramp oke	175	Vaikkal
				49/6B	Ryotwari	Wet	475	Thiru Veeramalai (1) Thiru Sankan (2) Thiru Ayyasamy Nadar (3)
				49/7	Ryotwari	Wet	344	Thiru Mariayappan S/o Krishnan
				50/2	Ryotwari	Wet	295	Thiru Srinivasan S/o Ramalingam
				50/3	Ryotwari	Wet	162	Thiru Neelamegam S/o Periyasamy (1) Thiru Marudhamuthu S/o Manickam (2)
				50/7	Ryotwari	Wet	299	Thiru Veeramalai S/o Sankan
				53/1	Government	Poramp oke	56	Vaikkal
				53/7A	Ryotwari	Wet	270	Tmt. Periyakkal W/o Sankan Moopan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				53/7B	Ryotwari	Wet	408	Tmt. Nallammal W/o Raman
				60/1	Government	Poramp oke	18	Vaikkal
				60/5A	Ryotwari	Wet	2650	Thiru Krishnan S/o Alagan
				60/5B	Ryotwari	Wet	225	Tmt. Palaniammal W/o Subbarayan
				63/1	Government	Poramp oke	26	Vaikkal
				63/2	Ryotwari	Wet	497	Thiru Ramarethnam S/o Rajarethnam
				63/3A	Ryotwari	Wet	2	Thiru Rasa Muthiriyar S/o Ondi Muthiriyar
				66/2	Ryotwari	Wet	482	Tmt. Saroja W/o Jeganathan
				66/3	Ryotwari	Wet	431	Thiru Jeganathan S/o Sundaram Pillai
				66/4	Ryotwari	Wet	438	Tmt. Kalavathi W/o Balamuthu
				66/5	Ryotwari	Wet	30	Thiru Thangavel Pillai S/o Subramanian
				66/6A	Ryotwari	Wet	152	Tmt. Pattayee W/o Malaiyalam
				66/6B	Ryotwari	Wet	53	Thiru Veeramuthu S/o Kandan
				67/1	Ryotwari	Wet	156	Tmt. Sujatha W/o Subburethinam
				67/3A	Ryotwari	Wet	115	Thiru Subramanian S/o Palaniyappa Nadar
				67/3B	Ryotwari	Wet	90	Thiru Marimuthu Nadar S/o Karuppaiah
				71/1	Government	Poramp oke	97	Vaikkal
				71/3A	Ryotwari	Wet	54	Thiru Viswanathan S/o Subramanian Vathiyar
				71/3B	Ryotwari	Wet	26	Thiru Ramadurai S/o Subbusamy

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				71/3C	Ryotwari	Wet	88	Tmt. Mathiyalagi W/o Muthusamy
				74/2C2	Ryotwari	Wet	52	Thiru Ashok Raja S/o C.A. Balan
				82/4A	Ryotwari	Wet	181	Thiru Nagarajan S/o Vaithiligam (1) Tmt. Dhanam W/o Andi (2) Tmt. Rajamani W/o Nagarajan (3)
				82/4B	Ryotwari	Wet	193	Thiru Periyannan S/o Vaithilinga Asari
				83/1	Ryotwari	Wet	55	Thiru Senthilkumar S/o Selvaraj
				85/1	Ryotwari	Wet	25	Thiru Veeramuthu S/o Velu
				86/3B	Ryotwari	Wet	90	Thiru Natarajan S/o Maruthai
				86/3C	Ryotwari	Wet	75	Alamelu Ammal
				86/3D	Ryotwari	Wet	144	Tmt. Annadhanam W/o Shanmugam
				88/2A	Ryotwari	Wet	648	Tmt. Manimegalai W/o Sangili
				88/2B	Ryotwari	Wet	395	Thiru Anagamuthu S/o Muniyandi
				88/3	Ryotwari	Wet	522	Thiru Sathyadeepan S/o Ganesan
				91/2	Ryotwari	Wet	41	Tmt. Nagammal W/o Narayanasamy
				92/5	Ryotwari	Wet	13	Tmt. Usharani W/o Selvaraj
				191/3	Government	Poramp oke	2774	Vaikkal
				193/1A	Ryotwari	Dry	36	Thiru Kathirvel S/o Malaiyala Muthiriyar
				193/1C	Ryotwari	Dry	11	Lane
				193/1D	Ryotwari	Dry	68	Tmt. Kamatchiammal W/o Kathirvel
				193/1E	Ryotwari	Dry	13	Thiru Rajendran (1) S/o Kathirvel Muthiriyar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				193/1G	Ryotwari	Dry	47	Thiru Karuppannan S/o Dharmar
				193/1H	Ryotwari	Dry	51	Thiru Thiyagarajan S/o Muthukathan
				193/1I	Ryotwari	Dry	11	Lane
				193/1J	Ryotwari	Dry	25	Thiru Arumugam S/o Muthuveeran
				193/1K	Ryotwari	Dry	25	Tmt. Sivagami W/o Vadivel
				193/1L	Ryotwari	Dry	8	Lane
				193/1M	Ryotwari	Dry	43	Thiru Ramu S/o Mallan
				193/1N	Ryotwari	Dry	40	Thiru Subramanian S/o Mallan
				193/1O	Ryotwari	Dry	7	Thiru Sannasi S/o Veerappan
				193/1P	Ryotwari	Dry	29	Thiru Malaiyalam S/o Periyasamy
				193/1Q	Ryotwari	Dry	33	Tmt. Chinnammal W/o Thiru Kailasam
				193/1R	Ryotwari	Dry	53	Thiru Settu S/o Ganapathi
				193/1S	Ryotwari	Dry	50	Thiru Karuppannan (1) Thiru Muthukathan (2) Thiru Maruthamuthu (3) Sons of Periyasamy Muthiriyar
				193/1T	Ryotwari	Dry	5	Lane
				193/1U	Ryotwari	Dry	23	Thiru Ariyan S/o Sannasi
				193/1V	Ryotwari	Dry	5	Lane
				193/1W	Ryotwari	Dry	17	Thiru Muthu S/o Veerappan
				193/1X	Ryotwari	Dry	44	Thiru Pattan S/o Kathan Muthiriyar
				193/1Y	Ryotwari	Dry	24	Thiru Velayutham (1) Thiru Arumugam (2) Sons of Malaiyalam
				193/1Z	Ryotwari	Dry	4	Lane

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				193/1AA	Ryotwari	Dry	20	Thiru Chokkalingam (1) Thiru Muthan (2) Thiru Rethinam (3) Sons of Mahamuni
				193/2A	Ryotwari	Dry	5	Lane
				193/2B	Ryotwari	Dry	16	Thiru Sangapillai S/o Veeramalai
				193/2D	Ryotwari	Dry	20	Vacant Site
				193/2E	Ryotwari	Dry	35	Tmt. Pappathiyammal W/o Ponnann
				193/2F	Ryotwari	Dry	23	Vacant Site
				193/2G	Ryotwari	Dry	5	Thiru Gopal S/o Ramu
				223/1	Ryotwari	Dry	880	Thiru Mani S/o Natesan
				223/2	Government	Poramp oke	274	Vaikkal
				223/8	Ryotwari	Wet	1705	Thiru V. Srinivasa Iyer
				224/1A	Ryotwari	Dry	694	Thiru Srinivasan S/o Krishnasamy Iyer
				224/1B	Ryotwari	Dry	370	Tmt. Valarmathi W/o Ravindran
				224/2	Ryotwari	Dry	88	Thiru Vaiyamalai S/o Palaniyandi
				225/1A	Ryotwari	Wet	2896	Mariyayee Ammal
				225/1B	Ryotwari	Wet	1000	Arulmigu Gopalakrishnan Swamy Koil
				226/4	Ryotwari	Wet	47	Thiru V. Srinivasa Iyer
				227	Government	Poramp oke	307	Vaikkal
				228/5	Ryotwari	Wet	682	Thiru Ramakrishna Iyer
				228/7	Ryotwari	Wet	447	Thiru Ravichandran S/o Venkatraman
				233/7	Ryotwari	Wet	129	Tmt. Geetha W/o Jambunatha Iyer
				233/8	Ryotwari	Wet	21	Manimegalaiammal

- 4401 GI/12-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				234/2	Ryotwari	Wet	2201	Tmt Pitchaiammal W/o Dharmalingam
				237	Government	Poramp oke	45	Vaikkal
				268/3	Government	Poramp oke	5402	Vaikkal
				331/1	Ryotwari	Wet	325	Tmt. Geetha W/o Jambunatha Iyer
				331/2	Ryotwari	Wet	79	Thiru Jambunadha Iyer S/o Narayanasamy
				331/3	Ryotwari	Wet	159	Thiru Subramanian S/o Sedhu Iyer
				331/4	Ryotwari	Wet	55	Thiru Ramasamy S/o Subramanian
				331/5	Ryotwari	Wet	110	Dwadhasi Kattalai Dharmam, Andhanallur
				331/6	Ryotwari	Wet	16	Tmt. Kamatchi D/o Periyasamy W/o (Late) Marimuthu
				331/7	Ryotwari	Wet	27	Tmt. Kamatchi D/o Periyasamy W/o (Late) Marimuthu
				332/1	Government	Poramp oke	14	Vaikkal
				332/3	Ryotwari	Wet	175	Thiru Srinivasan S/o Sankara-meshwarar Iyenkar
				332/5	Ryotwari	Wet	644	Arulmigu Gopalakrishnan Swamy Koil
			9. Perugamani	7/2	Government	Poramp oke	9113	Karai
				19/4B	Ryotwari	Wet	37	Tmt. R. Vijaya W/o Rethinam
				19/4C	Ryotwari	Wet	34	Tmt. M. Mallika W/o Muthu
				19/4D	Ryotwari	Wet	12	Thiru S Rajagopal S/o Sarangabani
				126/1	Government	Poramp oke	1666	Karai
				127/1	Government	Poramp oke	34	Pathway

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				127/2A1	Ryotwari	Dry	25	Thiru Jegannathan S/o Chozhan (1) Tmt. Mookkayee W/o (Late) Rajagopal (2) Thiru Paramaswami S/o (Late) Annavi (3)
				127/2A2	Government	Manai	69	Thiru Sangapillai Thiru Veeramalai
				127/2A3A	Ryotwari	Dry (Manai)	17	Thiru Raman S/o Marudhamuthu
				127/3	Ryotwari	Dry (Manai)	155	Thiru Sethuraman (1) Thiru Venkatraman (2) Sons of Ramasamy Thiru Kumar S/o Renganathan (3)
				127/4	Ryotwari	Dry (Manai)	94	Thiru S. Ramakrishnan
				127/5	Ryotwari	Dry (Manai)	99	Thiru Ramu Pillai S/o Kathaperumal
				127/6	Ryotwari	Dry (Manai)	117	Thiru M. Sundaram
				127/7	Ryotwari	Dry (Manai)	92	Thiru Kamatchiammal W/o Sundaram Pillai
				127/8	Ryotwari	Dry (Manai)	216	T. Logambal (1) T. Kamalambal (2)
				127/9	Ryotwari	Dry (Manai)	214	Nagarethinam
				127/10	Ryotwari	Dry (Manai)	95	Thiru Samidass S/o Ramaiah Nadar
				127/11	Ryotwari	Dry (Manai)	126	Tmt. Pangajavalli W/o Manickam
				127/12	Ryotwari	Dry (Manai)	151	Thiru Balan Nadar
				127/13	Ryotwari	Dry (Manai)	251	Thiru Arunagiri S/o Avuthi
				127/2B	Ryotwari	Dry (Manai)	31	Tmt. Rajammal W/o Ramasamy
				127/2C1A	Ryotwari	Dry (Manai)	2	Thiru M. Kaliyaperumal S/o Mandaiyan Chettyar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				127/2C1	Ryotwari	Dry (Manai)	169	Thiru Ganapathi Chettiyar S/o Vellaiyan Chettiyar (1) Thiru Samidass S/o Ramaiah Nadar (2)
				127/2C1C2	Ryotwari	Dry (Manai)	270	Thiru Sithaiyan S/o Gnanappan
				127/2C3A	Government	Manai	231	Tmt. Annalakka W/o Palaniyandi (1) Thiru Kuttu S/o Thangavelu (2)
				127/2C3B	Government	Manai	19	Thiru Thiyagarasan S/o Ayyakannu
				127/2C4A	Ryotwari	Dry (Manai)	40	Thiru Thiyagarasan S/o Ayyakannu
				127/2C4B	Ryotwari	Dry (Manai)	60	Thiru Ramasamy S/o Ayyakannu
				127/2C5A	Government	Manai	25	Thiru Ramasamy S/o Ayyakannu
				127/2C5B	Government	Porampoke	25	Pathway
				127/2C6	Government	Manai	50	Thiru Perumal S/o Veeramalai
				127/2C7A	Ryotwari	Dry (Manai)	40	Thiru Natarajan S/o Periyasamy Pillai
				127/2C7B	Ryotwari	Dry (Manai)	10	Pathway
				128/2	Government	Porampoke	4455	Layankarai
				145/1E	Ryotwari	Dry (Manai)	12	Tmt. Sabiyabeevi W/o Thasthakir
				145/1F	Ryotwari	Dry (Manai)	18	Thiru Ramakrishnan S/o Rasu (1) Thiru Jeyaraman S/o Rasu (2)
				145/1G	Ryotwari	Dry (Manai)	11	Thiru Mathukaruppan S/o Veeramalai (1) Thiru Sankar S/o Veeramalai (2)
				145/1H	Ryotwari	Dry (Manai)	8	Thiru K. Periyasamy S/o Kathan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				145/1I	Ryotwari	Dry (Manai)	14	Panchayat Union Middle School, Perugamani
				145/2	Ryotwari	Dry (Manai)	24	Thiru Ponnuvel Pilli S/o Mariappa Pillai (1) Tmt. Renuka W/o (Late) Kalyanasundaram (2)
				145/3A	Ryotwari	Dry (Manai)	302	Tmt. Renuka W/o (Late) Kalyanasundaram (1) Thiru Arumugam S/o Veeramalai (2) Thiru Murugesan S/o Annavi (3) Thiru Veeramali S/o Annavi (4) Tmt Krishnammal W/o Ayyadurai (5) Thiru Malayalam S/o (Late) Karuppannan (6) Thiru Shakul Hameed S/o Bavasahib (7) Thiru Sundaram S/o Marudhamuthu (8) Thiru P.S. Rajarethinam S/o Subramaniya Pillai (9) Thiru Muruganandham S/o Subramaniya Pillai (10) Thiru Panjavararam W/o (Late) Malaiyalam (11) Tmt. Sardha W/o Rajarethinam (12) Thiru Seeniammal W/o Malaiyalam (13) Tmt. Akilandam W/o Sannasi (14) Thiru Rasu S/o Muthuveeran (15) Thiru Sundaram S/o Marudhamuthu (16) Thiru Annavi S/o Marudhamuthu (17) Thiru Sankar S/o Duraiyappan (18)
				145/3B	Government	Porampoke	98	Natham
				145/3D	Government	Manai	80	Thiru Karuppannan S/o Thangaiyan
				145/3E	Government	Manai	45	Thiru Arumugam S/o Veeramalai
				145/3K	Government	Manai	57	Tmt. Thailammai W/o Arumugam'

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				145/3H	Government	Manai	59	Thiru Annavi S/o Veeramalai
				145/3M	Government	Manai	87	Tmt Saradha W/o Rajarathinam
				145/3 O	Government	Manai	101	Thiru Arumugam S/o Thangamuthu
				145/3P	Government	Manai	102	Thiru Periannan S/o Natesan
				145/3T	Government	Manai	112	Tmt Pappathi W/o Mariappan
				145/3U	Government	Manai	94	Thiru Muthan S/o Mavadiyan
				145/3V	Government	Manai	94	Thiru Muthan S/o Mavadiyan
				145/3W	Government	Manai	317	Thiru Muthan S/o Mavadiyan
				145/5H	Ryotwari	Dry (Manai)	64	Thiru Ramanathan S/o Venkatrama Iyer
				148A/14	Government	Poramp oke	53	Pallivasal
				148A/15	Government	Manai	71	Thiru Govindaraj S/o Palaniyandi
				148A/16	Government	Manai	72	Thiru Kumaravelan S/o Arumugam (1) Thiru Subramanian S/o Arumugam
				148A/17	Government	Manai	192	Tmt. Bomiammal W/o Mahamuni (1) Thiru Annavi S/o (Late) Subramaniyan (2) Tmt. R. Susila W/o Rajagopal (3)
				148A/19	Government	Manai	83	Thiru Sridhar (1) Thiru Ramesh (2) Thiru Suresh (3) Sons of Shanmugasundaram
				148A/20	Government	Manai	91	Tmt Malarkodi W/o Rajappan
				148A/23	Government	Manai	51	Rajasoundira D/o Nadanamoorthi

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				148A/24	Government	Manai	59	Thiru Shanmugam S/o (Late) Subramaniyan S/o (Late) Dhanalakshmi
				148A/33	Government	Poramp oke	71	Arulmigu Murugan Koil Samiyar Madam
				148A/34	Government	Manai	146	Thiru Nandanamoorthi Nadar S/o Appavu Nadar
				148A/35	Government	Poramp oke	38	Pathway
				148A/36	Government	Poramp oke	108	Arulmigu Viswanathar Koil
				148A/37	Government	Poramp oke	135	Pathway
				148B/1	Government	Poramp oke	235	Kovil
				148B/3	Government	Manai	4	Thiru Senthilkumar S/o Thangadurai Nadar
				148B/4	Government	Manai	38	Thiru Rajarethinam S/o Subramaniyan
				148B/5	Government	Manai	37	Thiru Velayutham Pillai S/o Gurusamy Pillai (1) Thiru Balakrishnan S/o Subramaniyan (2)
				148B/6	Government	Manai	69	Thiru Abdul Ajeez (1) Thiru Abdul Sathar (2) Sons of Resabsha Rowther
				148B/7	Government	Manai	39	Thiru Palanisamy Pillai S/o Subbaiah Pillai
				148B/8	Government	Manai	84	Thiru Sridhar (1) Thiru Ramesh (2) Thiru Suresh (3) Sons of Shanmugasundaram
				148B/9	Government	Manai	37	Tmt Nagarethinam W/o Appasamy
				148B/10	Government	Manai	153	Thiru Panneerselvam (1) Thiru Anbuselvam (2) Sons of Subramania Pillai
				148B/11	Government	Manai	80	Tmt. Mariayee W/o Sappani

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				148B/12	Government	Manai	42	Thiru Muthu (1) Thiru Durai (2) Sons of Karumbachalam
				148B/13	Government	Manai	77	Tmt. Poovayee Ammal W/o Rethinam Pillai
				148B/14	Government	Manai	58	Thiru Ramadass S/o Savari Muthu
				148B/15	Government	Manai	58	Thiru Gopinatha Rao S/o Anandha Rao
				148B/16	Government	Manai	30	Thiru Anbazhagan (1) Thiru Marimuthu (2) Thiru Duraisamy (3) Sons of Kuppusamy
				235/38	Government	Manai	18	Thiru Periyasamy S/o Muthu
				235/39	Government	Manai	64	Primary Agricultural Co- operative Bank, Thirupparaithurai
				235/40	Government	Manai	11	Thiru Srinivasan S/o Devru Gupta (1) Tmt. Vanaja W/o Srinivasan (2)
				235/41	Government	Manai	21	Thiru Srinivasan S/o Devru Gupta
				235/42	Government	Manai	33	Tmt. Periyakkal W/o Karuppannan
				235/43A	Government	Manai	17	Thiru Nagarajan S/o Kuzhandai Velu
				235/43B	Government	Manai	11	Thiru Jalaludheen S/o Abdul Razak
		10. Sirugamani East		9/10	Government	Manai	77	Thiru Ramanathan (1) Thiru Palaniyappa Chettiyar (2) Thiru Arumugam Chettiyar (3) Sons of Natesan Chettivar Thiru Subramanian (4) Thiru Ganapathy (5) Thiru Shanmugam (6) Sons of Ramalingam Chettiyar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				233/35	Government	Manai	55	Thiru Mani (1) Thiru Krishnan (2) Thiru Thangaraj (3) Sons of Ayinan
				234/85	Government	Manai	78	Thiru Marudhamuthu S/o Malaiyalam
				234/87	Government	Manai	109	Thiru Sundararajan S/o Marimuthu
		11. Sirugamani west		143/2A1	Ryotwari	Dry	38	Tmt. S. Rajamani W/o Sundaram Chettiyar (1) Thiru Muthu S/o Subramanian Chettiyar (2) Thiru Karumbachalam S/o Chinnaiah Pillai
				165/6	Ryotwari	Manai	44	Arulmigu Pattabi Ramasamy Bajanai Madam & 27 others
		12. K Saltranur North	AP/1	TS 1/2	Private	Dry	390	TWAD BOARD
				TS 1/3	Government	Potamp oke	232	N.K.H.L.C Kattalai Vaikkal
				TS 1/4	Government	Potamp oke	435	N.K.H.L.C Kattalai Vaikkal
				TS 1/9	Private	Dry	21903	TWAD BOARD
		13. Pirattiyur East	AJ/22	TS 2/5	Private	Dry	9721	TWAD BOARD
		14. Pirattiyur West	AM/31	TS 7/1B	Private	Dry	79	Tmt. Rajammal W/o Ramasamy
				TS 8/1	Private	Dry	3129	Thiru Subbaiyan S/o Kulandai Balandar

[E.No. NHAI/11013/2009/LA Notif./PIU-Karur]

MAYA PRAKASHI, Dy. Secy.